

PARIPOORNA MEDICLAIM AYUSH BIMA

HEALTH INSURANCE COVER FOR CGHS BENEFICIARIES

NIL GST | 100% AYUSH Coverage



Modern Treatment:
Access to modern
medical facilities.



Cashless Facility:
Available at Network
Hospitals.



AYUSH Benefits:
In-patient AYUSH
treatment covered up to
100% of Sum insured.



Family Floater:
Covers up to 6
members per policy.

Comprehensive Hospitalisation Cover Exclusively for CGHS Beneficiaries

Experience a ground-up insurance cover designed
specifically for you with a flexible co-pay structure.
24x7 Claim Processing by TPA for your peace of mind.

Sum Insured Options: ₹10 Lakh or ₹20 Lakh.

www.newindia.co.in

24x7 - Toll free number
1800-209-1415

+91 98333 19191

 @newindassurance



NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

Head Office: New India Assurance Building,
87, M. G. Road, Fort, Mumbai - 400 001 INDIA

IRDAI REGN No. 190

UIN: NIAHLIP26073V012526

CIN : L66000MH1919G01000526

Terms and conditions apply

Flexibility & Terms

Policy Term: 1 Year

Co-Payment Options:

Option A: 70/30

Option B: 50/50

Equitable Premiums: Same
Premium Chart for Serving &
Retired Employees.

Flexible Enrolment: Add New
Born or Newly Weds after enrolment.

Discounts & Bonuses

Cumulative Bonus: 10% per
claim-free year (Max 100%).

Floater Discounts:

2 Members: 5%

3 Members: 10%

More than 3 Members: 15%

Coverage Details

Room Rent Cap:	1% of Sum Insured per day.
ICU Cap:	2% of Sum Insured per day.
Pre-Hospitalisation:	Covered upto 30 Days.
Post-Hospitalisation:	Covered upto 60 Days.
Coverage Area:	In-Patient Hospitalisation (Pan India).

Waiting Periods

30 Days: General waiting period.

90 Days: For Diabetes / Hypertension.

Up to 24 Months: For specific diseases and PEDs.

Note: PED Waiver/Reduction subject to Good Health
Certificate from Employer/CGHS or the existing insurer.

For more information contact your nearest New India Assurance Office
or send email on paripoorna.health@newindia.co.in.

A World of Secure Benefits for CGHS Beneficiaries!

परिपूर्ण मेडिकलेम आयुष बीमा

सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए व्यापक अस्पतालीकरण आवरण

शून्य जीएसटी | 100% आयुष आवरण



आधुनिक उपचार
आधुनिक चिकित्सा
सुविधाओं तक पहुंच।



कैशलेस सुविधा
नेटवर्क अस्पतालों में
उपलब्ध।



आयुष आवरण
इन-पेशेंट आयुष उपचार बीमित
राशि का 100% तक आवरित।



फ्लोटर पॉलिसी
प्रति पॉलिसी 6 सदस्य
तक आवरित।

सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से व्यापक अस्पतालीकरण आवरण

एक लचीली सह-भुगतान संरचना के साथ विशेष रूप से आपके लिए डिज़ाइन किए गए ग्राउंड-अप बीमा आवरण का अनुभव करें। टीपीए द्वारा आपकी मानसिक शांति के लिए 24x7 दावा प्रबंधन।

बीमा राशि : ₹10 लाख / ₹20 लाख

www.newindia.co.in

24x7 - टोल फ्री नंबर
1800-209-1415

+91 98333 19191

@newindassurance



NEW INDIA ASSURANCE

दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd

प्रधान कार्यालय: न्यू इंडिया एश्योरेंस बिल्डिंग, 87,
एम. जी. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 भारत

IRDAI REGN No. 190
UIN: NIAHLIP26073V012526

CIN : L66000MH1919G01000526
नियम और शर्तें लागू

लचीलापन और शर्तें

पॉलिसी अवधि: 1 वर्ष

सह-भुगतान विकल्प:

विकल्प ए: 70/30

विकल्प बी: 50/50

समान प्रीमियम: सेवारत एवं
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए
समान प्रीमियम चार्ट।

लचीला नामांकन: नामांकन के बाद नवजात शिशु या नवविवाहितों
का आवरण।

छूट और बोनस

संचयी बोनस: प्रति दावा-मुक्त
वर्ष 10% (अधिकतम 100%)।

फ्लोटर छूट

2 सदस्य : 5%

3 सदस्य : 10%

3 से अधिक सदस्य: 15%

आवरण का विवरण

सामान्य कमरे के किराए की सीमा	प्रतिदिन बीमित राशि का 1%
आई.सी.यू. की सीमा	प्रतिदिन बीमित राशि का 2%
पूर्व-अस्पतालीकरण खर्च	30 दिनों तक आवरण
अस्पतालीकरण के पश्चात खर्च	60 दिनों तक आवरण
आवरण क्षेत्र	इन-पेशेंट अस्पतालीकरण (पैन इंडिया)

आवरण प्रतीक्षा अवधि

30 दिन : सामान्य प्रतीक्षा अवधि

90 दिन : मधुमेह/उच्च रक्तचाप के लिए

24 माह तक : निर्दिष्ट रोगों तथा पीईडी के लिए।

नोट: नियोक्ता/सीजीएचएस या मौजूदा बीमाकर्ता से अच्छे
स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर पीईडी के लिए छूट/कमी
लागू होगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी न्यू इंडिया एश्योरेंस ऑफिस से संपर्क
या paripoorna.health@newindia.co.in इसपर मेल करें।

सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सुरक्षित लाभों की व्यापकता!